

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 नवम्बर 2023—अग्रहायण 7, शक 1945

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2023

फा. क्र.-21(1)-2023-चार-वि.निर्वा.-155.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 434-म.प्र.-वि.स.-2023 (1), दिनांक 23 नवम्बर 2023 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2023—अग्रहायण 02, 1945 (शक)

संख्या 434/म.प्र.-वि. स.०/2023 (1)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा अपनी अधिसूचना संख्या 434/म.प्र.-वि. स.०/2023 (1), 19 अक्तूबर, 2023 के द्वारा अधिसूचित, मौजूदा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की, तालिका के स्तम्भ (1) में उल्लिखित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रचलित सामान्य निर्वाचन में मतगणना के कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
1. श्योपुर	4- डिप्टी कलेक्टर, श्योपुर -1 5- डिप्टी कलेक्टर, श्योपुर -2 6- नायब तहसीलदार, पाण्डोला
2. विजयपुर	4-नायब तहसीलदार, गसवानी 5-नायब तहसीलदार, अगरा 6-नायब तहसीलदार, गोरस
3. सबलगढ़	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कैलारस
4. जौरा	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जौरा
5. सुमावली	4-अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना
6. मुरैना	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुरैना
7. दिमनी	4-अधीक्षक भू-अभिलेख मुरैना
8. अम्बाह (अ.जा.)	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोगसा 5-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख मुरैना-1 6-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख मुरैना-2
9. अटेर	4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद
10. भिण्ड	4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मेहगाँव
11. लहार	4-नायब तहसीलदार, लहार
12. मेहगाँव	4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लहार
13. गोहद (अ.जा.)	4 -नायब तहसीलदार, मौ
20. सेवड़ा	4-नायब तहसीलदार, सेवड़ा -1
21. भाण्डेर (अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार, सेवड़ा-2

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
22. दतिया	4-नायब तहसीलदार, दतिया
28. बामोरी	4- तहसीलदार, (अधीक्षक भू अभिलेख), गुना
29. गुना (अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार, वृत्त, म्याना तहसील गुना (ग्रामीण) 5- नायब तहसीलदार, वृत्त, रमडी, तहसील चाचौड़ा 6-अधीक्षक, भू-ग्रन्थन, गुना-1 7- सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, गुना-1 8- सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, गुना- 2
30. चाचौड़ा	4-नायब तहसीलदार, चाचौड़ा 5- नायब तहसीलदार, कुम्भराज
31. राधोगढ़	4-तहसीलदार, कलेक्टर, गुना 5- नायब तहसीलदार, वृत्त, पनवाडीहाट, तहसील आरोन
32. अशोकनगर (अ.जा.)	4- नायब तहसीलदार वृत्त कचनार तहसील, अशोकनगर
33. चंदेरी	4- नायब तहसीलदार, चंदेरी
34. मुंगावली	4- नायब तहसीलदार, मुंगावली
35. बीना (अ.जा.)	4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीना
36. खुरई	4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खुरई 5-नायब तहसीलदार खुरई
37-सुरखी	4-नायब तहसीलदार जैसीनगर-1 5-नायब तहसीलदार जैसीनगर-2
38- देवरी	4-नायब तहसीलदार गौरझामर 5- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवरी
39-रहली	4-नायब तहसीलदार परसौरिया 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रहली
40-नरयावली (अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार शाहपुर 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैसीनगर
41- सागर	4-नायब तहसीलदार मालथौन 5- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सागर 6-अतिरिक्त नायब तहसीलदार सागर नगर 7-नायब तहसीलदार सुरखी
42-बण्डा	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बण्डा
43. टीकमगढ़	4-नायब तहसीलदार, शिवपुरी 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, टीकमगढ़ 6-डिप्टी कलेक्टर, टीकमगढ़
44. जतारा (अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार, स्यावनी
47. खरगापुर	4-नायब तहसीलदार, बलदेवगढ़
48. महाराजपुर	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नौगांव 5- अधीक्षक, भू- अभिलेख , छतरपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
49. चांदला (अ.जा.)	4-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर 5-नायब तहसीलदार, लवकुशनगर 6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गौरिहार
50. राजनगर	4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजनगर 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लवकुशनगर
51. छतरपुर	4- नायब तहसीलदार, महेबा 5-नायब तहसीलदार, ईशानगर 6-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छतरपुर
52. बिजावर	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिजावर 5-सहायक कलेक्टर, छतरपुर
53. मलहरा	4-नायब तहसीलदार, बड़ामलहरा 5-नायब तहसीलदार, घुवारा 6-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बड़ामलहरा
54. पथरिया	4-नायब तहसीलदार, बटियागढ़ 5-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, दमोह 6-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पथरिया 7-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बटियागढ़
55. दमोह	4-जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, दमोह 5-प्रभारी अधीक्षक, भू-अभिलेख, दमोह 6-नायब तहसीलदार, दमोह 7-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, दमोह 8-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दमोह
56. जबेरा	4-नायब तहसीलदार, जबेरा 5-नायब तहसीलदार, तेंदूखेडा 6-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तेंदूखेडा 7-परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास, तेंदूखेडा
57. हटा (अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार, पटेरा 5-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पटेरा 6-अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, हटा 7-अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हटा
58. पवई	4-तहसीलदार, पवई रैपुरा
59. गुन्नौर (अ.जा.)	4-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार अमानगंज
60. पन्ना	4-तहसीलदार नजूल
61. चित्रकूट	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझगवां
62. रेगौव (अ.जा.)	4-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सतना-1 5-मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कोठी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
63. सतना	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहावल/मैहर 5-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सतना-2 6-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, बिरसिंहपुर
64. नागौद	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उचेहरा 5-नायब तहसीलदार, बिरसिंहपुर
65. मैहर	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, रामनगर
66. अमरपाटन	4-नायब तहसीलदार रामनगर -1 5-नायब तहसीलदार रामनगर -2
67. रामपुर-बघेलान	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, रामपुर बघेलान 5-नायब तहसीलदार, रामपुर बघेलान
68. सिरमौर	4- नायब तहसीलदार, सिरमौर-1 5- नायब तहसीलदार, सिरमौर-2 6-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिरमौर 7-रंजर, सिरमौर
69. सेमरिया	4-नायब तहसीलदार, सेमरिया-2
70. त्योंथर	4-नायब तहसीलदार, त्योंथर-2
71. मऊगंज	4-बाल विकास परियोजना अधिकारी, मऊगंज
72. देवतालाब	4- नायब तहसीलदार, देवतालाब
73. मनगवाँ (अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार, मनगवा - 2
74. रीवा	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रीवा 5- सहायक संचालक, रीवा-1 6- प्राचार्य, डाईट 7- सहायक संचालक, रीवा -2
75. गुढ़	4-नायब तहसीलदार, गुढ़ 5- सहायक प्राध्यापक, गुढ़-1 6-सहायक प्राध्यापक, गुढ़-2 7-सहायक प्राध्यापक, गुढ़-3
76. चुरहट	4-नायब तहसीलदार, चुरहट-2
77. सीधी	4-नायब तहसीलदार, गोपद बनास-2
78. सिहावल	4-नायब तहसीलदार, बहरी
79. चितरंगी (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार-3, चितरंगी
80. सिंगरौली	4- नायब तहसीलदार-2, सिंगरौली
81. देवसर (अ.जा.)	4-अतिरिक्त तहसीलदार, देवसर
82. धौहनी (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, मडवास
83. ब्यौहारी (अ.ज.जा.)	4-डिप्टी कलेक्टर, शहडौल
84. जयसिंहनगर (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, जयसिंहनगर-1 5-नायब तहसीलदार, जयसिंहनगर-2
85. जैतपुर (अ.ज.जा.)	4- तहसीलदार, बुढ़ार

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटनिंग ऑफिसर
(1)	(2)
86. कोतमा	4-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, अनूपपुर-1
87. अनूपपुर (अ.ज.जा.)	4-अधीक्षक भू-अभिलेख, अनूपपुर
88. पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.)	4-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, अनूपपुर-2
89. बांधवगढ़ (अ.ज.जा.)	4-तहसीलदार, बिलासपुर
90. मानपुर (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, पाली
91. बड़वारा (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, बड़वारा
92. विजयराघवगढ़	4-नायब तहसीलदार, विजयराघवगढ़
93. मुड़वारा	4-नायब तहसीलदार, मुड़वारा-2 5-नायब तहसीलदार, मुड़वारा-3
94. बहोरीबंद	4-नायब तहसीलदार, बहोरीबंद
95. पाटन	4-नायब तहसीलदार, पाटन -2
96. बरगी	4-नायब तहसीलदार, शाहपुरा, जबलपुर
97. जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	4- सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जबलपुर-1
98. जबलपुर उत्तर	4- डिप्टी कलेक्टर, जबलपुर-2
99. जबलपुर केंद्र	4- सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जबलपुर-2
100. जबलपुर पश्चिम	4- डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.एम. कुण्डम, जबलपुर
101. पनागर	4- नायब तहसीलदार, मझौली, जबलपुर
102. सिहोरा (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, सीहोरा, जबलपुर -2
103. शहपुरा (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, शहपुरा -2
104. डिण्डोरी (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, करंजिया
105. बिछिया (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार अंजनिया
106. निवास (अ.ज.जा.)	4-तहसीलदार नारायणगंज 5-नायब तहसीलदार मोहगांव 6-नायब तहसीलदार बबलिया
107. मण्डला (अ.ज.जा.)	4-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैनपुर 5-तहसीलदार नैनपुर 6-अतिरिक्त तहसीलदार मण्डला 7-नायब तहसीलदार, नजूल
108. बैहर (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, बैहर 5-अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, बैहर
109. लांजी	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लांजी 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, किरनापुर
110. परसवाड़ा	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, परसवाड़ा 5-प्राचार्य रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय, परसवाड़ा
111. बालाघाट	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बालाघाट 5-नायब तहसीलदार, लालबर्वा 6-सहायक प्राध्यापक, शासकीय एग्रीकल्चर कॉलेज, वागसिवनी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
112. वारासिवनी	4-नायब तहसीलदार खैरलांजी 5-परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, वारासिवनी
113. कटंगी	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कटंगी 5-परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, कटंगी
114. बरघाट (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, बरघाट 5- नायब तहसीलदार, कुरई 6-परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. बरघाट
115. सिवनी	4-नायब तहसीलदार, बंडोल 5-नायब तहसीलदार, सिवनी 6-नायब तहसीलदार, छपारा 7-नायब तहसीलदार, कहानी 8-अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, सिवनी 9-मंडी सचिव, सिवनी
116. केवलारी	4-नायब तहसीलदार, भोमा 5-नायब तहसीलदार, केवलारी-1 6-नायब तहसीलदार, केवलारी-2 7-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सिवनी
117. लखनादौन (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, लखनादौन
118. गोटेगांव (अ.जा.)	4-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी आई यू, नरसिंहपुर 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोटेगांव
119. नरसिंहपुर	4-महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, नरसिंहपुर 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर 6-जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, नरसिंहपुर 7-सहायक प्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, नरसिंहपुर 8-अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, नरसिंहपुर 9-परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास करेली
120. तेंदूखेड़ा	4-मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, तेंदूखेड़ा 5- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नरसिंहपुर 6- सहायक संचालक, मत्स विभाग, नरसिंहपुर
121. गाडरवारा	4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चांवरपाठा 5- सहायक संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, नरसिंहपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
122. जुन्नारदेव (अ.ज.जा.)	6- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, नगसिंहपुर 4-नायब तहसीलदार तामिया 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जुन्नारदेव 6-नायब तहसीलदार दमुआ
123. अमरवाड़ा (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार अमरवाड़ा-1 5-नायब तहसीलदार अमरवाड़ा-2 6-नायब तहसीलदार हरई
124. चौरई	4-नायब तहसीलदार चांद 5-नायब तहसीलदार चौरई 6-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चौरई
125. सौसर	4-नायब तहसीलदार सौसर-4 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मोहखेड़ 6-नायब तहसीलदार सौसर-5
126 छिन्दवाड़ा	4-कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिन्दवाड़ा 5-नायब तहसीलदार छिन्दवाड़ा-1 6-नायब तहसीलदार छिन्दवाड़ा-2
127. परासिया(अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार, उमरेठ 5-वनपरिक्षेत्र अधिकारी, परासिया 6-मुख्य नगरपालिका अधिकारी, परासिया
128. पांडुर्ना (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार पांडुर्ना 5-नायब तहसीलदार बिछुआ 6-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पांडुर्ना
129. मुलताई	4- सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख बैतूल
130. आमला (अ.जा.)	6-नायब तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी
131. बैतूल	4- सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख बैतूल 5-नायब तहसीलदार, भीमपुर 6-नायब तहसीलदार, भैसदेही
134. टिमरनी (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार टिमरनी
135. हरदा	4-नायब तहसीलदार हरदा-1 5-नायब तहसीलदार हरदा-2
136. सिवनी मालवा	4-नायब तहसीलदार, सिवनी मालवा
137. होशंगाबाद	4-तहसीलदार, नर्मदापुरम (ग्रामीण)
138. सोहागपुर	4- नायब तहसीलदार, सोहागपुर
139. पिपरिया (अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार, बनखेड़ी
140. उदयपुरा	4-नायब तहसीलदार, बरेली
141. भोजपुर	4-नायब तहसीलदार, सुल्तानपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
142. सांची (अ.जा.)	4-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गैरतगंज
143. सिलवानी	4-नायब तहसीलदार, सिलवानी
144. विदिशा	4-संयुक्त कलेक्टर, विदिशा
	5-नायब तहसीलदार (ग्रामीण), विदिशा
	6- तहसीलदार, गुलाबगंज
145. बासौदा	4-अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)ग्यारसपुर
	5-अतिरिक्त तहसीलदार, बासौदा-1
	6- अतिरिक्त तहसीलदार, बासौदा-2
146. कुरवाई (अ.जा.)	4-डिप्टी कलेक्टर, विदिशा,
147. सिरोंज	4- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)लटेरी
	5-नायब तहसीलदार, लटेरी
148. शमशाबाद	4-नायब तहसीलदार, विदिशा, (ग्रामीण)
149. बैरसिया (अ.जा.)	4-डिप्टी कलेक्टर, भोपाल
	5-सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख भोपाल
	6-नायब तहसीलदार-3, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल
150. भोपाल उत्तर	4-संयुक्त कलेक्टर एवं अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल
	5- तहसीलदार-2, नजूल वृत्त, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), भोपाल
	6-नायब तहसीलदार-3, नजूल वृत्त, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), भोपाल
151. नरेला	4-डिप्टी कलेक्टर, भोपाल-2
	5-डिप्टी कलेक्टर, भोपाल-3
	6-अतिरिक्त तहसीलदार-1, नजूल गोविन्दपुरा, वृत्त, भोपाल
152. भोपाल दक्षिण-पश्चिम	4-डिप्टी कलेक्टर, भोपाल-4
	5-डिप्टी कलेक्टर, भोपाल-5
	6-नायब तहसीलदार-3, नजूल, टी- टी- नगर, वृत्त, भोपाल
	7- तहसीलदार-2, नजूल, टी- टी- नगर, वृत्त, भोपाल
	8- सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख भोपाल
153. भोपाल मध्य	4-डिप्टी कलेक्टर, भोपाल-6
	5- अधीक्षक, भू-अभिलेख भोपाल
	6- तहसीलदार-2, नजूल शहर, वृत्त, भोपाल
154. गोविन्दपुरा	4-डिप्टी कलेक्टर, भोपाल-7
	5-डिप्टी कलेक्टर, भोपाल-8
	6-सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख भोपाल
	7- नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख भोपाल
	8- नायब तहसीलदार-3, नजूल, एम.पी. नगर, वृत्त, भोपाल

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
155. हज़ूर	4-डिप्टी कलेक्टर, भोपाल-9 5-नायब तहसीलदार-2, कोलार सर्कल, भोपाल 6- नायब तहसीलदार-2, तहसील हुजुर, भोपाल
156. बुधनी	4-नायब तहसीलदार-1, बुधनी 5-नायब तहसीलदार-2, बुधनी 6-नायब तहसीलदार-3, बुधनी
157. आष्टा (अ.जा.)	4-तहसीलदार, आष्टा 5-नायब तहसीलदार, आष्टा 6-अधीक्षक भू-अभिलेख, सीहोर-1
158. इछावर	4-नायब तहसीलदार, इछावर
159. सीहोर	4-तहसीलदार, सीहोर 5-नायब तहसीलदार, सीहोर 6-अधीक्षक भू-अभिलेख, सीहोर-2
160. नरसिंहगढ़	4-नायब तहसीलदार, बोडा 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नरसिंहगढ़ 6-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नरसिंहगढ़
161. ब्यावरा	4- नायब तहसीलदार, मलावर 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ब्यावरा 6-परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, ब्यावरा
162. राजगढ़	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजगढ़ 5-नायब तहसीलदार, खुजनेर 6-परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, राजगढ़
163. खिलचीपुर	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजगढ़ 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जीरापुर 6-अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, खिलचीपुर
164. सारंगपुर (अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार, सण्डावता 5-परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, सारंगपुर
167. शाजापुर	4-नायब तहसीलदार, उप तहसील मक्सी
168. शुजालपुर	4-तहसीलदार अकोदिया, तहसील शुजालपुर
169. कालापीपल	4-नायब तहसीलदार, उप तहसील, अरनियां कलौं
170. सोनकच्छ (अ.जा.)	4-अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टोंकखुर्द 5-नायब तहसीलदार, टोंकखुर्द 6-नायब तहसीलदार, सोनकच्छ
171. देवास	4-नायब तहसीलदार, सतवास 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोनकच्छ
172. हाटपिपत्या	4-अतिरिक्त तहसीलदार (ग्रामीण) देवास

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
173. खातेगांव	4-अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कन्नौद 5-नायब तहसीलदार, कन्नौद 6-महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र देवास
174. बागली (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, बागली 5-नायब तहसीलदार, उदयनगर 6-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बागली
175. मांधाता	4-तहसीलदार मून्दी तहसील मून्दी
176. हरसूद (अ.ज.जा.)	4-प्रभारी डिप्टी कलेक्टर खण्डवा 5-तहसीलदार खालवा, तहसील खालवा
177. खण्डवा (अ.जा.)	4-संयुक्त कलेक्टर-1 खंडवा 5-संयुक्त कलेक्टर-2 खंडवा 6-नायब तहसीलदार-4 खंडवा, तहसील खंडवा
178. पंधाना (अ.ज.जा.)	4-डिप्टी कलेक्टर, खंडवा
181. भीकनगांव (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, भीकनगांव
182. बड़वाहा	4-नायब तहसीलदार सनावद
183. महेश्वर (अ.जा.)	4-नासब तहसीलदार बड़वाह
184. कसरावद	4-नायब तहसीलदार, सेगांव
185. खरगौन	4-तहसीलदार, खरगौन (ग्रामीण) 5-नायब तहसीलदार, खरगौन (ग्रामीण) 6-नायब तहसीलदार टप्पा बिस्टान तहसील गोगावां
186. भगवानपुरा (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार सेगांव
187. सेंधवा (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार वरला 5-डिप्टी कलेक्टर बड़वानी 6-जिला परिवहन अधिकारी, बड़वानी
188. राजपुर (अ.ज.जा.)	4-विकासखंड शिक्षा अधिकारी पाटी 5-डिप्टी कलेक्टर बड़वानी 6-नायब तहसीलदार ठीकरी 7-नायब तहसीलदार राजपुर
189. पानसेमल (अ.ज.जा.)	4-संभागीय यंत्री, लोक निर्माण विभाग, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बड़वानी 5-विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पानसेमल 6-नायब तहसीलदार निवाली 7-प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पानसेमल
190. बड़वानी (अ.ज.जा.)	4-अधीक्षक भू-अभिलेख, बड़वानी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
	5-अनुविभागीय अधिकारी वन पाटी
	6-परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, पाटी
	7-नायब तहसीलदार पलसुद
192. जोबट (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, चन्द्र शेखर आजाद नगर
193. झाबुआ (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, झाबुआ
194. थांदला (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, थांदला
195. पेटलावद (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार, पेटलावद
196. सरदारपुर (अ.ज.जा.)	5-अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सरदारपुर
197. गंधवानी (अ.ज.जा.)	5-विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड गंधवानी
198. कुक्षी (अ.ज.जा.)	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुक्षी
	5-अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग कुक्षी
199. मनावर (अ.ज.जा.)	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनावर
200. धरमपुरी (अ.ज.जा.)	4-नायब तहसीलदार तहसील धरमपुरी
201. धार	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धार
	5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तिरला
202. बदनावर	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बदनावर
203. देपालपुर	4-मु-अर्जन अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर
	5-बाल विकास परियोजना अधिकारी, ग्रामीण बेटमा, महिला एवं बाल विकास, तहसील देपालपुर, इन्दौर
	6-उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इन्दौर
204. इन्दौर-1	4-डिप्टी कलेक्टर, इन्दौर
	5-सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, इन्दौर
	6-सहायक यंत्री, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इन्दौर
205. इन्दौर-2	4-संयुक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर
	5-सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम योजना, इन्दौर
	6-सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, इन्दौर
206. इन्दौर-3	4-तहसीलदार जुनी, इन्दौर
	5-जिला खनिज अधिकारी, इन्दौर
	6-संभागीय लेखा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग इन्दौर
207. इन्दौर-4	4-डिप्टी कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर इन्दौर
	5-सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग, इन्दौर-1
	6-सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग, इन्दौर-2
208. इन्दौर-5	4- संयुक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर
	5- नायब तहसीलदार, भिचौली हप्सी, इन्दौर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
	6- सहायक यंत्री इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर 7- जिला मत्स्य अधिकारी इंदौर
209. डॉ अम्बेडकरनगर- महू	4- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, डॉ अम्बेडकरनगर महू 5- अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, डॉ अम्बेडकरनगर महू 6- बाल विकास परियोजना अधिकारी ग्रामीण, महिला एवं बाल विकास, डॉ अम्बेडकरनगर महू
210 राऊ	4- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. इन्दौर 5- अतिरिक्त जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय इन्दौर 6- संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग इन्दौर 7- सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, इन्दौर
211 सांवेर (अ. जा.)	4- खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग इंदौर 5- सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम योजना, इन्दौर 6- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सांवेर
212. नागदा-खाचरोद	4- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा
216. उज्जैन उत्तर	4- नायब तहसीलदार, नजूल उज्जैन
217. उज्जैन दक्षिण	4- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन (ग्रामीण) 5- तहसीलदार नजूल, उज्जैन 6- नायब तहसीलदार उज्जैन (ग्रामीण)
220. रतलाम सिटी	4- डिप्टी कलेक्टर, रतलाम - 1 5- डिप्टी कलेक्टर, रतलाम - 2
222. जावरा	4- नायब तहसीलदार, बडावदा 5- नायब तहसीलदार, ढोढर
224. मंदसौर	4- डिप्टी कलेक्टर, मंदसौर 5- नायब तहसीलदार, मंदसौर 6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर
225. मल्हारगढ़ (अ.जा.)	4- डिप्टी कलेक्टर मंदसौर 5- अधीक्षक भू-अभिलेख मंदसौर 6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मल्हारगढ़
226. सुवासरा	4- नायब तहसीलदार सीतामऊ -1 5- नायब तहसीलदार सीतामऊ -2 6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतामऊ
227. गरोठ	4- नायब तहसीलदार गरोठ 5- नायब तहसीलदार भानपुरा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
	6-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गरोठ
228. मनासा	4-नायब तहसीलदार मनासा
229. नीमच	4-नायब तहसीलदार नीमच ग्रामीण
230. जावद	4-नायब तहसीलदार जावद

2. उपर्युक्त अधिकारी उक्त विधान सभा क्षेत्रों से प्रचलित सामान्य निर्वाचनों 2023 में मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के तुरन्त बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

आदेश से,
हस्ता./-
(अमित कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 23rd November, 2023 – Agrahayan 02, 1945 (Saka)

No. 434/MP-LA/2023 (1) – In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, hereby, appoints the officers of the Government specified in Column (2) of the Table below, as the Assistant Returning Officers, in addition to the existing Assistant Returning Officers notified vide Commission's Notification No. 434/MP-LA/2023(1), dated 19th October, 2023, to assist the Returning Officers of the Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, as specified in the Column (1) of the said Table, for the execution of their works with respect to the Counting of votes, for the ongoing General Elections from the Assembly Constituencies mentioned in Column (1) of the Table.

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
1. Sheopur	4- Deputy Collector, Sheopur -1 5- Deputy Collector, Sheopur -2 6- Nayab Tehsildar, Pandola
2. Vijaypur	4-Nayab Tehsildar, Gaswani 5-Nayab Tehsildar, Agra 6-Nayab Tehsildar, Goras
3. Sabalgarh	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Kailaras
4. Joura	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Joura
5. Sumawali	4-Additional Chief Executive Officer District Panchayat Morena
6. Morena	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Morena
7. Dimani	4-Superintendent Land Record Morena
8. Ambah(SC)	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Porsa 5-Assistant Superintendent Land Record Morena-1 6-Assistant Superintendent Land Record Morena-2
9. Ater	4- Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Gohad
10. Bhind	4- Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Mehgaon
11. Lahar	4- Nayab Tehsildar, Lahar
12. Mehgaon	4- Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Lahar
13. Gohad(SC)	4--Nayab Tehsildar , Mau

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
20.Sewda	4-Nayab Tehsildar Sevda-1
21.Bhander (SC)	4-Nayab Tehsildar Sevda-2
22.Datia	4-Nayab Tehsildar, Datia
28.Bamori	4-Tehsildar (Superintendent Land Record) Guna
29.Guna (SC)	4-Nayab Tehsildar, Circle Myana, Tehsil Guna (Rural)
	5-Nayab Tehsildar, Circle Ramdi, Tehsil Chachoura
	6-superintendent Land Management, Guna-1
	7-Asstt.superintendent Land Record Guna- 1
30.Chachoura	8- Asstt.superintendent Land Record Guna- 2
	4-Nayab Tehsildar, Chachoda
31.Raghogarh	5-Nayab Tehsildar, Kumbhraj
	4-Tehsildar, Collectorate, Guna
32.Ashok Nagar (SC)	5-Nayab Tehsildar, Circle, Panwadihat, Tehsil Aron
	4- Nayab Tehsildar Circle Kachnar Tehsil, Ashoknagar
33.Chanderi	4- Nayab Tehsildar, Chanderi
34.Mungaoli	4- Nayab Tehsildar, Mungaoli
35.Bina (SC)	4-Chief Executive Officer Janpad Panchayat Bina
36.Khurai	4-Chief Executive Officer Janpad Panchayat Khurai
	5-NayabTehsildar Khurai
37.Surkhi	4- NayabTehsildar Jaisinagar-1
	5-NayabTehsildar Jaisinagar-2
38.Deori	4-NayabTehsildar Gorjhamar
	5-Chief Executive Officer Janpad Panchayat deori
39.Rehli	4- NayabTehsildar Parsoriya
	5- Chief Executive Officer Janpad Panchayat Rehli
40.Naryoli (SC)	4-NayabTehsildar Shahpur
	5- Chief Executive Officer Janpad Panchayat Jaisinagar
41.Sagar	4- NayabTehsildar Malthone
	5- Chief Executive Officer Janpad Panchayat Sagar
	6- Additional Nayab Tehsildar Sagar Nagar
	7-Nayab Tehsildar Surkhi
42.Banda	4- Chief Executive Officer Janpad Panchayat Banda
43.Tikamgarh	4-Nayab Tehsildar, Shivpuri

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
	5-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Tikamgarh
	6-Deputy Collector, Tikamgarh
44.Jatara (SC)	4-Nayab Tehsildar, Syawani
47.Khargapur	4- Nayab Tehsildar, Baldevgarh
48.Maharajpur	4- Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Nowgaon
	5- superintendent Land Record, Chatarpur
49.Chandla (SC)	4-Sub Divisional Officer (Revenue) Lawkushnagar
	5-Nayab Tehsildar, Lawkushnagar
	6-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Gorihar
50.Rajnagar	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Rajnagar
	5-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Lawkushnagar
51.Chhatarpur	4-Nayab Tehsildar, Maheba
	5- Nayab Tehsildar, Ishanagar
	6-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Chhatarpur
52.Bijawar	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Bijawar
	5-Additional Collector, Chatarpur
53.Malhara	4-Nayab Tehsildar, Badamalhara
	5- NayabTehsildar, Ghuwara
	6- Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Badamalhara
54.Pathariya	4- Nayab Tehsildar, Batiyagarh
	5- Assistant Superintendent Land Records Damoh
	6- Chief Executive Officer Janpad Panchayat Pathariya
	7- Chief Executive Officer Janpad Panchayat Batiyagrah
55.Damoh	4- District Women and Child Development Officer Damoh
	5- Assistant Superintendent Land Records Damoh
	6- Nayab Tehsildar Damoh
	7- Assistant Superintendent Land Records Damoh
	8- Chief Executive Officer Janpad Panchayat Damoh
56.Jabera	4- Nayab Tehsildar Jabera
	5- Nayab Tehsildar Tendukheda
	6- Chief Executive Officer Janpad Panchayat Tendukheda
	7- Project Officer, Women Child Development, Tendukheda

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
57.Hatta (SC)	4- Nayab Tehsildar, Patera
	5- Chief Municipal Officer Patera
	6- Sub-divisional officer Public Works Department, Hatta
	7- Sub-Divisional Officer Public Health Engineering Department, Hatta
58.Pawai	4-Tehsildar,Pawai Raipura
59.Gunnaor (SC)	4- Supriendent Land Record,Teshildar Amanganj
60.Panna	4-Tehsildar, Najul
61.Chitrakoot	4- Chief Executive Officer, Janpad Panchyat, Majhganwan
62.Raigaon (SC)	4-Assistant Superintendent Land Record , Satna-1
	5-Chief Municipal Officer, Municipal Council, Kotli
63.Satna	4- Chief Executive Officer Janpad Panchyat, Sohawal/Maihar
	5-Assistant Superintendent Land Record , Satna-2
	6-Chief Municipal Officer, Municipal Council, Birsinghpur
64.Nagod	4- Chief Executive Officer Janpad Panchyat, Uchehara
	5-Nayab Tehsildar, Birsinghpur
65.Maihar	4-Chief Executive Officer Janpad Panchyat, Ramnagar
66.Amarpatan	4-Nayab Tehsildar, Ramnagar -1
	5-Nayab Tehsildar, Ramnagar -2
67.Rampur-Baghelan	4-Chief Executive Officer Janpad Panchyat, Rampur Baghelan
	5-Nayab Tehsildar, Rampur Baghelan
68.Sirmour	4-Nayab Tehsildar, Sirmour-1
	5-Nayab Tehsildar, Sirmour-2
	6-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Sirmour
	7- Ranger , Sirmour
69.Semariya	4-Nayab Tehsildar,Semariya-2
70.Teonthar	4-Nayab Tehsildar,Teonthar-2
71.Mauganj	4-Chief Devolpment Officer, Mauganj
72.Deotalab	4- Nayab Tehsildar,Deotalab
73.Mangawan (SC)	4-Nayab Tehsildar,Mangawan-2
74.Rewa	4-Chief Executive Officer, Rewa
	5- Assistant Director, Rewa-1
	6- Principal, Diet

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
	7- Assistant Director, Rewa-2
75.Gurh	4-Nayab Tehsildar, Gurh
	5- Assistant Professor, Gurh-1
	6- Assistant Professor, Gurh-2
	7-Assistant Professor, Gurh-3
76.Churhat	4-Nayab Tehsildar, Churhat-2
77.Sidhi	4-Nayab Tehsildar, Gopad Banas-2
78.Sihawal	4-Nayab Tehsildar, Bahari
79.Chitrangi (ST)	4-Nayab Tehsildar-3, Chitrangi
80.Singrauli	4- Nayab Tehsildar-2, Singrauli
81.Devsar (SC)	4-Assistant Tehsildar , Deosar
82.Dhauhani (ST)	4-Nayab Tehsildar, Madwas
83. Beohari (ST)	4-Deputy Collector Shadol
84.Jaisingnagar (ST)	4-Nayab Tehsildar,Jaisinghnagar-1
	5- Nayab Tehsildar,Jaisinghnagar-2
85.Jaitpur (ST)	4- Tehsildar, Budhar
86.Kotma	4-Assistant Superintendent Land Record , Anuppur-1
87.Anuppur (ST)	4-Superintendent Land Record , Anuppur
88.Pushprajgarh (ST)	4-Assistant Superintendent Land Record , Anuppur-2
89.Bandhavgarh (ST)	4-Tehsildar , Bilaspur
90.Manpur (ST)	4- Nayab Tehsildar, Pali
91.Barwara (ST)	4-Nayab Tehsildar, Barwara
92.Vijayraghavgarh	4-Nayab Tehsildar, Vijayraghavgarh
93.Murwara	4-Nayab Tehsildar, Murwara-2
	5-Nayab Tehsildar, Murwara-3
94.Bahoriband	4-Nayab Tehsildar, Bahoriband
95.Patan	4-Nayab Tehsildar, Patan-2
96.Bargi	4-Nayab Tehsildar, Shahpura, Jabalpur
97.Jabalpur Purba (SC)	4- Assistant Superintendent Land Record , Land Record, Jabalpur-1
98.Jabalpur Uttar	4-Deputy Collector, Jabalpur-2
99.Jabalpur Cantt	4- Assistant Superintendent Land Record , Land Record, Jabalpur-2

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
100.Jabalpur Paschim	4- Deputy Collector/SIDM Kundam, Jabalpur
101.Panagar	4- Nayab Tehsildar, Majholi Jabalpur
102.Sihora (ST)	4-Nayab Tehsildar, Schora, Jabalpur-2
103.Shahpura (ST)	4-Nayab Tehsildar, Shahpura-2
104.Dindori (ST)	4-Nayab Tehsildar, Karanjiya
105.Bichhiya (ST)	4- Nayab Tehsildar Anjanina
106.Niwas (ST)	4-Tehsildar Narayanganj
	5- Nayab Tehsildar Mohgaon
	6-Nayab Tehsildar Babalia
107.Mandla (ST)	4--Sub Divisional Officer (Revenue) Nainpur
	5-Tehsildar Nainpur
	6-Additional Tehsildar Mandla
	7-Nayab Tehsildar Nazul
108.Baihar (ST)	4-Nayab Tehsildar Baihar
	5-Sub Divisioanal Officer, PWD, Baihar
109.Lanji	4-Chief Executive Officer Janpad Panchayat, Lanji
	5-Chief Executive Officer Janpad Panchayat, Kirnapur
110.Paraswada	4-Chief Executive Officer Janpad Panchayat ,Paraswada
	5-Principal, Rani Durgawati Govt. College, Paraswada
111.Balaghat	4-Chief Executive Officer Janpad Panchayat, Balaghat
	5-Nayab Tehsildar, Lalbarra
	6-Assistant Professor, Govt Agri. College, Waraseoni
112.Waraseoni	4-Nayab Tehsildar, Khairlanji
	5-Project Officer Integrated Child Development , Waraseoni
113.Katangji	4-Chief Executive Officer Janpad Panchayat, Katangi
	5-Project Officer Integrated Child Devolpment , Katangi
114.Barghat (ST)	4-Nayab Tahsildar, Barghat
	5-Nayab Tahsildar Kurai
	6-Project Officer, ICDS Barghat
115.Seoni	4-Nayab Tahsildar, Bandol
	5-Nayab Tahsildar, Seoni
	6-Nayab Tahsildar, Chhapara
	7-Nayab Tahsildar, Kahani

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
116.Keolari	8-Sub Divisional Officer, Agriculture, Seoni
	9-Mandi secretary Seoni
	4-Nayab Tahsildar, Bhoma
117.Lakhnadon (ST)	5-Nayab Tahsildar, Keolari-1
	6-Nayab Tahsildar, Keolari-2
	7-Assistant Superintendent Land Records, Seoni
	4-Nayab Tahsildar, Lakhnadon
118.Gotegaon (SC)	4-Executive Engineer, Public Works Department, P.I.U. Narsinghpur
	5-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Gotegaon
119. Narsinghpur	4-General Manager, District Cooperative Central Bank Limited, Narsinghpur
	5-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Narsinghpur
	6-District Coordinator, Tribal Welfare Department, Narsinghpur
	7-Assistant Manager, Prime Minister Rural Road Development Authority, Narsinghpur
	8-Sub-Divisional Officer, Public Works Department, Bridge Construction, Narsinghpur
	9- Project Officer Women Child Development Kareli
120.Tendukheda	4- Chief Municipal Officer Nagar Panchayat, Tendukheda
	5- Executive Engineer, Public Health Engineering, Narsinghpur
	6- Assistant Director, Fisheries Department, Narsinghpur
121.Gadarwara	4- Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Chawarpatha
	5-Assistant Director, Farmers Welfare and Agriculture Development Department, Narsinghpur
	6- Chief Municipal Officer, Municipal Council, Narsinghpur
122.Junnardeo (ST)	4-Nayab Tehsildar Tamia
	5-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Junnardeo
	6-Nayab Tehsildar Damua
123.Amarwara (ST)	4-Nayab Tehsildar Amarwara-1
	5-Nayab Tehsildar Amarwara-2
	6-Nayab Tehsildar Harai
124.Churai	4-Nayab Tehsildar Chand

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
	5-Nayab Tehsildar Chaurai
	6-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Chaurai
125.Saunsar	4-Nayab Tehsildar Sausar-4
	5-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Mohkhed
	6-Nayab Tehsildar Sausar-5
126.Chhindwara	4-Executive Engineer, Rural Engineering Services, Chhindwara
	5-Nayab Tehsildar Chhindwara-1
	6-Nayab Tehsildar Chhindwara-2
127.Parasia (SC)	4-Nayab Tehsildar Umreth
	5-Forest Range Officer Parasia
	6-Chief Municipal Officer, Parasia
128.Pandhurna (ST)	4-Nayab Tehsildar Pandhurna
	5-Nayab Tehsildar Bichhua
	6-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Pandhurna
129.Multai	4- Assistant Superintendent Land Record , Betul
130.Amla (SC)	6-Nayab Tehsildar, Ghodadongri
131.Betul	4- Assistant Superintendent Land Record , Betul
	5-Nayab Tehsildar, Bhimpur
	6-Nayab Tehsildar , Bhainsdehi
134.Timarni (ST)	4-Nayab Tehsildar Timarani
135.Harda	4-Nayab Tehsildar Harda-1
	5-Nayab Tehsildar Harda-2
136.Sconi-Malwa	4-Nayab Tehsildar, sconi-Malwa
137.Hoshangabad	4-Tehsildar, Narmadapuram (Rural)
138.Sohagpur	4-Nayab Tehsildar, Sohagpur
139.Pipariya (SC)	4-Nayab Tehsildar, Bankhedi
140.Udaipura	4-Nayab Tehsildar, Bareli
141.Bhojpur	4-Nayab Tehsildar, Sultanpur
142.Sanchi (SC)	4-Sub Divisional Officer (Revenue) Gairatganj
143.Silwani	4- Nayab Tehsildar, Silwani
144.Vidisha	4-Joint Collector , Vidisha
	5-Nayab Tehsildar (Rural) , Vidisha
	6- Tehsildar, Gulabganj

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
145.Basoda	4-Sub Divisional Officer (Revenue) Gyaraspur
	5-Additional Tehsildar, Basoda-1
	6-Additional Tehsildar, Basoda-2
146.Kurwai (SC)	4-Deputy Collector, Vidisha
147.Sironj	4-Sub Divisional Officer (Revenue) Lateri
	5-Nayab Tehsildar, Lateri
148.Shamshabad	4-Nayab Tehsildar, Vidisha (Rural)
149.Berasia (SC)	4-Deputy Collector, Bhopal
	5-Assistant Superintendent Land Record, Bhopal
	6-Nayab Tehsildar-3, Tehsil Berasia, Bhopal
150.Bhopal Uttar	4-Joint Collector and Additional Commissioner Municipal Corporation, Bhopal
	5- Tehsildar-2, Nazul Circle, Sant Hirdaram nagar (Bairagarh) Bhopal
	6-Nayab Tehsildar-3, Nazul Circle, Sant Hirdaram nagar (Bairagarh) Bhopal
151.Narela	4-Deputy Collector, Bhopal -2
	5-Deputy Collector, Bhopal -3
	6-Additional Tehsildar-1, Nazul Govindpura, Circle, Bhopal
152.Bhopal Dakshin-Paschim	4 - Deputy Collector, Bhopal -4
	5-Deputy Collector, Bhopal -5
	6-Nayab Tehsildar-3, Nazul, T-T-Nagar, Circle, Bhopal
	7- Tehsildar-2, Nazul, T-T-Nagar, Circle, Bhopal
	8- Assistant Superintendent Land Record, Bhopal
153.Bhopal Madhya	4-Deputy Collector, Bhopal -6
	5-Superintendent Land Record, Bhopal
	6- Tehsildar-2, Nazul City, Circle, Bhopal
154.Govindpura	4-Deputy Collector, Bhopal -7
	5-Deputy Collector, Bhopal -8
	6-Assistant Superintendent Land Record, Bhopal
	7- Nayab Tehsildar, Land Record, Bhopal
	8- Nayab Tehsildar-3, Nazul, M.P.Nagar, Circle, Bhopal
155.Huzur	4-Deputy Collector, Bhopal -9
	5-Nayab Tehsildar-2, Kolar Circle, Bhopal

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
	6-Nayab Tehsildar-2, Tehsil Huzur, Bhopal
156.Budhni	4-Nayab Tehsildar-1, Budhni
	5-Nayab Tehsildar-2, Budhni
	6-Nayab Tehsildar-3, Budhni
157.Ashta(SC)	4-Tehsildar, Ashta
	5-Nayab Tehsildar, Ashta
	6-Superintendent Land Record, Schore-1
158.Ichhawar	4-Nayab Tehsildar, Ichhawar
159.Schore	4-Tehsildar, Schore
	5-Nayab Tehsildar, Schore
	6-Suptendent Land Record, Schore-2
160.Narsinghgarh	4-Nayab Tehsildar, Boda
	5-Chief Executive officer, Janpad Panchayat, Narsinghgarh
	6-Chief Municipal officer, Narsinghgarh
161.Biaora	4-Nayab Tehsildar, Malawar
	5-Chief Executive officer, Janpad Panchayat, Biaora
	6-Project Officer Integrated Child Development, Biaora
162.Rajgarh	4-Chief Executive officer, Janpad Panchayat, Rajgarh
	5-Nayab Tehsildar, Khujner
	6-Project Officer Integrated Child Development, Rajgarh
163.Khilchipur	4-Chief Executive officer, Janpad Panchayat, Rajgarh
	5-Chief Executive officer, Janpad Panchayat, Zirapur
	6-Sub Divisional Officer, Public Works Department, Khilchipur
164.Sarangpur(SC)	4-Nayab Tehsildar, Sandawata
	6-Project Officer Integrated Child Development, Sarangpur
167.Shajapur	4-Nayab Tehsildar, Sub Tehsil, Maksi
168.Shujalpur	4-Tehsildar Akodia, Tehsil, Shujalpur
169.Kalapipal	4-Nayab Tehsildar, Sub Tehsil, Arniyakalan
170.Sonkatch(SC)	4-Sub Divisonal Officer (Revenue) Tonkkhurd
	5-Nayab Tahsildar Tonkkhurd
	6-Nayab Tahsildar Sonkatch
171.Dewas	4-Nayab Tahsildar Satwas
	5-Chief Executive officer, Janpad Panchayat, Sonkatch

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
172.Hatpipliya	4-Additional Tehsildar (Rural), Dewas
173.Khategaon	4-Sub Divisonal Officer (Revenue) Kanood
	5-Nayab Tahsildar Kanood
	6-General Manager District Industries Centre Dewas
174.Bagali (ST)	4-Nayab Tahsildar Bagli
	5-Nayab Tahsildar Udaynagar
	6-Chief Executive Officer Janpad Panchayat, Bagli
175.Mandhata	4-Tehsildar Mundi Tehsil Mundi
176.Harsud (ST)	4-Incharge Deputy Collector Khandwa
	5-Tehsildar Khalwa Tehsil Khalwa
177.Khandwa(SC)	4-Joint Collector-1 Khandwa
	5-Joint Collector-2 Khandwa
	6-Nayab Tehsildar-4 Khandwa Tehsil Khandwa
178.Pandhana (ST)	4-Deputy Collector Khandwa
181. Bhikangaon (ST)	4-Nayab Tehsildar, Bhikangaon
182.Badwah	4-Nayab Tehsildar, Sanawad
183.Maheshwar (SC)	4-Nayab Tehsildar, Badwah
184.Kasrawad	4-Nayab Tehsildar, Segaon
185.Khargone	4-Tehsildar Khargone (Rural)
	5-Nayab Tehsildar Khargone (Rural)
	6-Nayab Tehsildar Tappa Bistan Tehsil Gogavan
186.Bhagwanpura(ST)	4-Nayab Tehsildar Segaon
187.Sendhawa(ST)	4-Nayab Tehsildar Warla
	5-Deputy Collector Barwani
	6-District Transport Officer, Barwani
188.Rajpur(ST)	4-Block Education Officer Pati
	5-Deputy Collector Barwani
	6-Nayab Tehsildar Thikri
	7-Nayab Tehsildar Rajpur
189.Pansema(ST)	4-Divisional Engineer , Public Works Department , Project Implementing Unit , Barwani
	5.Block Education Officer Pansema
	6-Nayab Tehsildar Niwali

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
	7-Principal Govt. College Pansemal
190.Badwani(ST)	4-Superintendent Land Record, Badwani
	5-Sub Divisional Officer Forest Pati
	6-Project Officer Integrated Child Development , Pati
	7-Nayab Tehsildar Palsud
192.Jobat(ST)	4-Nayab Tehsildar, Chandra Shekhar Azad Nagar,
193.Jhabua(ST)	4-Nayab Tehsildar, Jhabua
194.Thandla(ST)	4-Nayab Tehsildar, Thandla
195.Petlawad(ST)	4-Nayab Tehsildar, Petlawad
196.Sardarpur(ST)	4-Sub-Divisional Officer, Public Works Department Sardarpur
197.Gandhwani (ST)	4-Block Education Officer, Block Gandhwani
198.Kukshi(ST)	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Kukshi
	5-Sub-Divisional Officer, Public Works Department Kukshi
199.Manawar(ST)	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Manawar
200.Dharampuri (ST)	4-Nayab Tehsildar, Tehsil Dharampuri
201.Dhar	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Dhar
	5-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Tirla
202.Badnawar	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Badnawar
203.Depalpur	4- Land Acquisition Officer, Indore Development Authority, Indore
	5- Child Development Project Officer Rural Betma, Mahila & Bal Vikas, Tehsil, Depalpur, Indore
	6- Deputy Director, Regional Office Karmchari Rajya Bima Nigam, Indore
204.Indore-1	4-Deputy Collector Indore
	5- Assistant Commissioner, Tribal Welfare Department, Indore
	6-Assistant Engineer, M.P. Rural Road Development Authority Project Indore
205.Indore-2	4-Joint Collector, Office of Collectorate Indore
	5- Assistant Director, Town & Country planning, Indore
	6- Assistant Director, Farmer welfare And Agricultural Development Department Indore
206.Indore-3	4- Tehsildar, Juni Indore
	5- District Mining Officer, Indore
	6-Divisional Account Officer, PWD, Bridge Construction Div. Indore

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
207.Indore-4	4- Deputy Collector, Office of Collectorate Indore 5-Assistant Engineer, Public Works Department, Indore-1 6-Assistant Engineer, Public Works Department, Indore-2
208.Indore-5	4-Joint Collector Office of Collectorate Indore 5-Nayab Tehsildar, Bicholi Hapsi indore 6- Assistant Engineer, Indore Development Authority, Indore 7-District Fisheries Officer, Indore
209.Dr. Ambedkar Nagar-Mhow	4-Sub Divisional Officer, Public Works Department, Dr. Ambedkar Nagar Mhow 5- Sub Divisional Officer, Water resources Department, Dr. Ambedkar Nagar Mhow 6- Child Development Project Officer Rural, Mahila Bal Vikas, Dr. Ambedkar Nagar Mhow
210.Rau	4- Sub Divisional Officer, Public Works Department, PIU Indore 5- Additional District Treasury Officer, District Treasury Indore 6-Joint Director, Urban Administration Department, Indore 7- Assistant Engineer, Rural Engineering Service Indore
211.Sanwer (SC)	4- Block Education Officer, School Education Department, Indore 5- Assistant Director, Town & Country planning, Indore 6- Sub Divisional Officer, Public Works Department, Sanwer
212.Nagada-Khachrod	4-Sub Division Officer (Revenue), Nagda
216.Ujjain Uttar	4-Nayab Tehsildar, Najul Ujjain
217.Ujjain Dakshin	4-Sub Division Officer (Revenue), Ujjain (Rural) 5-Tehsildar Najul, Ujjain 6-Nayab Tehsildar, Ujjain (Rural)
220.Ratlam City	4-Deputy Collector Ratlam-1 5-Deputy Collector Ratlam-2
222.Jaora	4-Nayab Tehsildar, Badawada 5-Nayab Tehsildar, Dhodhar
224.Mandsour	4-Deputy Collector Mandsour 5-Nayab Tehsildar Mandsour 6-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Mandsour
225.Malhargarh(SC)	4-Deputy Collector Mandsour 5-Superintendent Land Record, Mandsour 6-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Malhargadh

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
226.Suwasra	4-Nayab Tehsildar Sitamau -1
	5-Nayab Tehsildar Sitamau-2
	6-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Sitamau
227.Garoth	4-Nayab Tehsildar Garoth
	5-Nayab Tehsildar Bhanpura
	6-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Garoth
228.Manasa	4-Nayab Tehsildar Manasa
229.Neemuch	4-Nayab Tehsildar Neemuch Rural
230. Jawad	4-Nayab Tehsildar Jawad

2. The above Officers shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the completion of process of Counting of Votes in the ongoing General elections, 2023 from the abovementioned assembly constituencies.

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.